



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i).

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4 ]  
No. 4 ]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 3, 2001/पौष 13, 1922  
NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 3, 2001/PAUSA 13, 1922

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जनवरी, 2001

सं. 1/2001-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 4(अ).—अभिहित प्राधिकारी, यूरोपियन संघ और ताइवान में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यात किए गए सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के उप-शीर्ष सं. 2907.23 के अन्तर्गत आने वाले विस्केनोल-ए के आयात के मामले में भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खंड 1, तारीख 27 अप्रैल, 2000 में प्रकाशित अपने प्रारंभिक निष्कर्षों के आधार पर इस निर्णय पर पहुंचे थे कि—

(क) यूरोपियन संघ और ताइवान में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यात किए गए विस्केनोल-ए का भारत को निर्यात सामान्य मूल्य से कम मूल्य पर किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप पाटन हुआ है;

(ख) भारतीय उद्योग को तात्त्विक क्षति पहुंची है;

(ग) विषयगत देश या राज्यक्षेत्र से संचयी रूप से आयातों द्वारा क्षति कारित हुई है;

और अभिहित प्राधिकारी के पूर्वोक्त निष्कर्षों के आधार पर केन्द्रीय सरकार ने भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) तारीख 6 जून, 2000 में सा. का. नि. सं. 524 (अ), तारीख 6 जून, 2000 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 85/2000-सीमाशुल्क तारीख 6 जून, 2000 द्वारा प्रतिपादित शुल्क अधिरोपित किया था;

और अभिहित प्राधिकारी, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खंड 1, तारीख 15 दिसम्बर, 2000 में प्रकाशित अपने अंतिम निष्कर्षों के आधार पर इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि—

(क) यूरोपियन संघ और ताइवान में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यात किए गए विस्केनोल-ए का भारत को निर्यात सामान्य मूल्य से कम मूल्य पर किया गया है जिसके परिणामस्वरूप पाटन हुआ है;

(ख) घरेलू उद्योग को इस सीमा तक क्षति पहुंची है कि उसे हानि उभरती हुई है जबकि सभी अन्य महत्वपूर्ण आर्थिक सूचकों में सुधार दर्शित हुआ है;

(ग) फिर भी घरेलू उद्योग द्वारा उठाई गई क्षति और विषयगत देश या राज्यक्षेत्र से पादित आयात के बीच कोई नैमित्तिक संपर्क स्थापित नहीं किया जा सका।

अतः अब केंद्रीय सरकार, सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उस पर पाटित शुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) नियम, 1995 के नियम 18 के उपनियम (4) के साथ पठित, उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, की धारा 9क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अभिहित प्राधिकारी के पूर्वोक्त अंतिम निष्कर्षों के आधार पर यूरोपियन संघ और ताइवान में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यात किए गए उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची के उपशीर्ष 2907.23 के अन्तर्गत आने वाले विस्केनोल-ए पर अंतिम प्रतिपाटित शुल्क का उद्ग्रहण वापिस लेती है।

[फा.सं. 354/51/2000-टी आर यू (भाग-II)]

प्रशांत कुमार सिन्हा, अवर सचिव

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd January, 2001

No. 1/2001-CUSTOMS

**G.S.R. 4(E).**— WHEREAS in the matter of import of Bisphenol-A, falling under sub-heading No. 2907.23 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), originating in, or exported from, European Union and Taiwan, the designated authority *vide* its preliminary findings, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 27<sup>th</sup> April, 2000 had come to the conclusion that -

- (a) Bisphenol-A, originating in, or exported from, the European Union and Taiwan, has been exported to India below its normal value, resulting in dumping;
- (b) the Indian industry has suffered material injury;
- (c) the injury has been caused cumulatively by the imports from the subject country or territory;

AND WHEREAS on the basis of the aforesaid findings of the designated authority, the Central Government had imposed an anti-dumping duty *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 85/2000-Customs, dated the 6<sup>th</sup> June, 2000, published in Part II, Section 3, Sub-section (i) of the Gazette of India, Extraordinary, dated the 6<sup>th</sup> June, 2000 *vide* G.S.R. No. 524(E), dated the 6<sup>th</sup> June, 2000;

AND WHEREAS the designated authority *vide* its final findings published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 15<sup>th</sup> December, 2000 has come to the conclusion that -

- (a) Bisphenol-A, originating in, or exported from, the European Union and Taiwan, has been exported to India below its normal value resulting in dumping;

- (b) the domestic industry has suffered injury to the extent that it has incurred losses while all other vital economic indices have shown improvement;
- (c) however no causal link could be established between the injury suffered by the domestic industry and the dumped imports from the subject country or territory;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 9A of the said Customs Tariff Act, read with sub-rule (4) of rule 18 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, on the basis of the aforesaid final findings of the designated authority, hereby withdraws the levy of provisional anti-dumping duty on Bisphenol-A, falling under sub-heading No. 2907.23 of the First Schedule to the said Customs Tariff Act, originating in, or exported from, the European Union and Taiwan.

[F.No. 354/51/2000-TRU (Pt-II)]

PRASHANT KUMAR SINHA, Under Secy.

